

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2015—अग्रहायण 5, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना  
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ-3-4-2015-एक-4.—सन् 2016 में निम्नलिखित सामान्य (जनरल) छुट्टियां मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में मनाई जायेंगी:—

## सामान्य (जनरल) छुट्टियां

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>समस्त रविवार</b>					
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1937	मंगलवार
2	संत रविदास जयन्ती	एक	22 फरवरी	फाल्गुन 03, 1937	सोमवार
3	महाशिवरात्रि	एक	07 मार्च	फाल्गुन 17, 1937	सोमवार
4	होली	एक	23 मार्च	चैत्र 03, 1938	बुधवार
5	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)	एक	25 मार्च	चैत्र 05, 1938	शुक्रवार
6	गुड़ी पड़वा/चैती चांद	एक	08 अप्रैल	चैत्र 19, 1938	शुक्रवार
7	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 25, 1938	गुरुवार
8	रामनवमी	एक	15 अप्रैल	चैत्र 26, 1938	शुक्रवार
9	महावीर जयन्ती	एक	19 अप्रैल	चैत्र 30, 1938	मंगलवार
10	परशुराम जयन्ती	एक	09 मई	वैशाख 19, 1938	सोमवार
11	बुद्ध पूर्णिमा	एक	21 मई	वैशाख 31, 1938	शनिवार
12	ईद-उल-फितर	एक	06 जुलाई	आषाढ़ 15, 1938	बुधवार
13	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1938	सोमवार
14	रक्षाबंधन	एक	18 अगस्त	श्रावण 27, 1938	गुरुवार
15	जन्माष्टमी	एक	25 अगस्त	भाद्रपद 03, 1938	गुरुवार
16	ईदुज्जुहा	एक	12 सितम्बर	भाद्रपद 21, 1938	सोमवार
17	दशहरा (विजयादशमी)	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1938	मंगलवार
18	मोहर्रम	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1938	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
19	गुरुनानक जयन्ती	एक	14 नवम्बर	कार्तिक	23, 1938	सोमवार
20	मिलाद-उन-नबी	एक	13 दिसम्बर	अग्रहायण	22, 1938	मंगलवार

टीप.— (1) इस विषय में कोषागार एवं उप कोषागार निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2015 की अधिसूचना से नियंत्रित होंगे।

(2)	गांधी जयन्ती		02 अक्टूबर	आश्विन	10, 1938
	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती		16 अक्टूबर	आश्विन	24, 1938
	दीपावली		30 अक्टूबर	कार्तिक	08, 1938
	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)		25 दिसम्बर	पौष	04, 1938

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ-3-4-2015-एक-4.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची में उल्लिखित दिन भी सन् 2016 के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :—

#### अनुसूची

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1937	मंगलवार
2	महाशिवरात्रि	एक	07 मार्च	फाल्गुन 17, 1937	सोमवार
3	होली	एक	23 मार्च	चैत्र 03, 1938	बुधवार
4	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 12, 1938	शुक्रवार
5	रामनवमी	एक	15 अप्रैल	चैत्र 26, 1938	शुक्रवार
6	महावीर जयन्ती	एक	19 अप्रैल	चैत्र 30, 1938	मंगलवार
7	बुद्ध पूर्णिमा	एक	21 मई	वैशाख 31, 1938	शनिवार
8	ईद-उल-फितर	एक	06 जुलाई	आषाढ़ 15, 1938	बुधवार
9	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1938	सोमवार
10	रक्षाबंधन	एक	18 अगस्त	श्रावण 27, 1938	गुरुवार
11	जन्माष्टमी	एक	25 अगस्त	भाद्रपद 03, 1938	गुरुवार
12	ईदुज्जुहा	एक	12 सितम्बर	भाद्रपद 21, 1938	सोमवार
13	दशहरा (विजयादशमी)	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1938	मंगलवार
14	मोहर्रम	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1938	बुधवार
15	गुरुनानक जयन्ती	एक	14 नवम्बर	कार्तिक 23, 1938	सोमवार
16	मिलाद-उन-नबी	एक	13 दिसम्बर	अग्रहायण 22, 1938	मंगलवार

टीप.— (1)	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन	10, 1938
	दीपावली	एक	30 अक्टूबर	कार्तिक	08, 1938
	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)	एक	25 दिसम्बर	पौष	04, 1938

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

ऐच्छिक (आप्शनल) छुट्टियां

स. क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1937	शुक्रवार
2	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	एक	06 जनवरी	पौष 16, 1937	बुधवार
3	मकर संक्रांति / पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1937	शुक्रवार
4	गुरु गोविन्दसिंह जी का जन्म दिवस	एक	16 जनवरी	पौष 26, 1937	शनिवार
5	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	एक	21 जनवरी	माघ 01, 1937	गुरुवार
6	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	एक	29 जनवरी	माघ 09, 1937	शुक्रवार
7	बसंत पंचमी	एक	13 फरवरी	माघ 24, 1937	शनिवार
8	शबरी जयन्ती	एक	24 फरवरी	फाल्गुन 05, 1937	बुधवार
9	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	एक	04 मार्च	फाल्गुन 14, 1937	शुक्रवार
10	होली (होलिका दहन)	एक	22 मार्च	चैत्र 02, 1938	मंगलवार
11	भाई दूज	एक	25 मार्च	चैत्र 05, 1938	शुक्रवार
12	निषादराज जयन्ती / महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	एक	11 अप्रैल	चैत्र 22, 1938	सोमवार
13	विशु	एक	14 अप्रैल	चैत्र 25, 1938	गुरुवार
14	हाटकेश्वर जयन्ती	एक	20 अप्रैल	चैत्र 31, 1938	बुधवार
15	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	21 अप्रैल	वैशाख 01, 1938	गुरुवार
16	वल्लभाचार्य जयन्ती	एक	03 मई	वैशाख 13, 1938	मंगलवार
17	सेन जयन्ती	एक	04 मई	वैशाख 14, 1938	बुधवार
18	अक्षय तृतीया	एक	09 मई	वैशाख 19, 1938	सोमवार
19	शंकराचार्य जयन्ती	एक	11 मई	वैशाख 21, 1938	बुधवार
20	शब-ए-बारात	एक	23 मई	ज्येष्ठ 02, 1938	सोमवार
21	छत्रसाल जयन्ती / महाराणा प्रताप जयन्ती	एक	07 जून	ज्येष्ठ 17, 1938	मंगलवार
22	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	एक	09 जून	ज्येष्ठ 19, 1938	गुरुवार
23	महेश जयन्ती	एक	13 जून	ज्येष्ठ 23, 1938	सोमवार
24	बड़ा महादेव पूजन	एक	18 जून	ज्येष्ठ 28, 1938	शनिवार
25	कबीर जयन्ती	एक	20 जून	ज्येष्ठ 30, 1938	सोमवार
26	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ़ 03, 1938	शुक्रवार
27	जमात-उल-विदा	एक	01 जुलाई	आषाढ़ 10, 1938	शुक्रवार
28	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	एक	05 जुलाई	आषाढ़ 14, 1938	मंगलवार
29	रथयात्रा	एक	06 जुलाई	आषाढ़ 15, 1938	बुधवार
30	गुरु पूर्णिमा	एक	19 जुलाई	आषाढ़ 28, 1938	मंगलवार
31	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	एक	10 अगस्त	श्रावण 19, 1938	बुधवार
32	दुर्गादास राठौर जयन्ती	एक	13 अगस्त	श्रावण 22, 1938	शनिवार
33	पारसी नववर्ष दिवस	एक	17 अगस्त	श्रावण 26, 1938	बुधवार
34	बलराम जयन्ती	एक	23 अगस्त	भाद्रपद 01, 1938	मंगलवार
35	गणेश चतुर्थी	एक	05 सितम्बर	भाद्रपद 14, 1938	सोमवार
36	नवाखाई	एक	08 सितम्बर	भाद्रपद 17, 1938	गुरुवार
37	डोलग्यारस	एक	12 सितम्बर	भाद्रपद 21, 1938	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	ओणम	एक	14 सितम्बर	भाद्रपद 23, 1938	बुधवार
39	अनंत चतुर्दशी	एक	15 सितम्बर	भाद्रपद 24, 1938	गुरुवार
40	विश्वकर्मा जयन्ती	एक	17 सितम्बर	भाद्रपद 26, 1938	शनिवार
41	गदीर-ए-खुम	एक	19 सितम्बर	भाद्रपद 28, 1938	सोमवार
42	प्राणनाथ जयन्ती	एक	29 सितम्बर	आश्विन 07, 1938	गुरुवार
43	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	एक	30 सितम्बर	आश्विन 08, 1938	शुक्रवार
44	अग्रसेन जयन्ती	एक	01 अक्टूबर	आश्विन 09, 1938	शनिवार
45	दशहरा (महानवमी)	एक	10 अक्टूबर	आश्विन 18, 1938	सोमवार
46	योम-ए-अशुरा	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1938	मंगलवार
47	करवा चौथ पर्व	एक	19 अक्टूबर	आश्विन 27, 1938	बुधवार
48	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	29 अक्टूबर	कार्तिक 07, 1938	शनिवार
49	दीपावली का दूसरा दिन	एक	31 अक्टूबर	कार्तिक 09, 1938	सोमवार
50	भाईदूज	एक	01 नवम्बर	कार्तिक 10, 1938	मंगलवार
51	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	एक	07 नवम्बर	कार्तिक 16, 1938	सोमवार
52	नामदेव जयन्ती	एक	10 नवम्बर	कार्तिक 19, 1938	गुरुवार
53	बिरसा मुंडा जयन्ती	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1938	मंगलवार
54	झलकारी जयन्ती	एक	22 नवम्बर	अग्रहायण 01, 1938	मंगलवार
55	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवम्बर	अग्रहायण 03, 1938	गुरुवार
56	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	एक	06 दिसम्बर	अग्रहायण 15, 1938	मंगलवार
57	दत्तात्रय जयन्ती	एक	13 दिसम्बर	अग्रहायण 22, 1938	मंगलवार
58	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	एक	31 दिसम्बर	पौष 10, 1938	शनिवार

टीप.— (1) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 58 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

(2) निम्नलिखित त्यौहार / जयन्ती आदि रविवार को पड़ने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है :—

स.क्र.	छुट्टी का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देव नारायण जयन्ती / नर्मदा जयन्ती	14 फरवरी	माघ 25, 1937
2	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	21 फरवरी	फाल्गुन 02, 1937
3	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च	फाल्गुन 30, 1937
4	भक्त माता कर्मा जयन्ती	03 अप्रैल	चैत्र 14, 1938
5	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	08 मई	वैशाख 18, 1938
6	नागपंचमी	07 अगस्त	श्रावण 16, 1938
7	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	11 सितम्बर	भाद्रपद 20, 1938
8	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर	भाद्रपद 27, 1938
9	दशहरा (महाअष्टमी)	09 अक्टूबर	आश्विन 17, 1938
10	महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती / टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	16 अक्टूबर	आश्विन 24, 1938
11	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर	अग्रहायण 27, 1938

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.